



**COM 203**

**B.COM. III<sup>rd</sup> SEMESTER EXAMINATION, 2024-25**

**COMMERCE**

**(Cost Accounting-I)**

AFFIX PRESCRIBED  
RUBBER STAMP

**Paper ID**

(To be filled in the  
OMR Sheet)

Date (तिथि) : \_\_\_\_\_

**1104**

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) : \_\_\_\_\_

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

**Important Instructions :**

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

**महत्वपूर्ण निर्देश :**

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Cost Accounting is a :
  - (A) Part of management accounting
  - (B) Part of financial accounting
  - (C) Part of responsibility accounting
  - (D) None of the above (A), (B) & (C)
2. The head office of the institute of cost and works Accountants of India is situated at -
  - (A) New Delhi
  - (B) Mumbai
  - (C) Kolkatta
  - (D) Dehradun
3. Cost accounts are maintained compulsory for compliance to statutory obligation in -
  - (A) All business concerns
  - (B) Manufacturing concerns
  - (C) Certain specific manufacturing companies
  - (D) All of the above (A), (B) and (C)
4. The main objective of cost accounting is to -
  - (A) Maximize profit
  - (B) Help in inventory valuation
  - (C) Provide information to management for decision making
  - (D) Aid in the fixation of selling prices

1. लागत लेखांकन है -
  - (A) प्रबन्धकीय लेखांकन का भाग
  - (B) वित्तीय लेखांकन का भाग
  - (C) उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग
  - (D) उपर्युक्त (A), (B) और (C) में कोई नहीं
2. द इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया का प्रधान कार्यालय स्थित है -
  - (A) नई दिल्ली में
  - (B) मुम्बई में
  - (C) कोलकत्ता में
  - (D) देहरादून में
3. लागत लेखे वैधानिक दायित्व पालन हेतु अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं -
  - (A) सभी व्यवसायिक संस्थानों में
  - (B) निर्माणी संस्थानों में
  - (C) कुछ निश्चित निर्माणी कम्पनियों में
  - (D) उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) सभी में
4. लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है -
  - (A) लाभों को अधिकतम करना
  - (B) स्कन्ध मूल्यांकन में सहायता करना
  - (C) निर्णयन हेतु प्रबन्धन को सूचनाएँ देना
  - (D) विक्रय मूल्य के निर्धारण में सहायक

5. Multiple costing method is used in -
- Oil refinery
  - Car manufacturing company
  - Sugar mill
  - Multi product company
6. Which of the following document is used for issuing materials to production departments ?
- Purchase requisition note
  - Stores requisition note
  - Goods received note
  - Stores credit note
7. According to which methods of pricing of issue of materials, issues are close to current economic values ?
- LIFO Method
  - FIFO Method
  - HIFO Method
  - Weighted average price method
8. The classification of items in A, B, C Analysis is made on the basis of -
- Investment value of materials
  - Consumption value of materials
  - Quantity of materials consumed
  - All of the above (A), (B) & (C)
5. बहुसंख्यक लागत पद्धति प्रयोग की जाती है -
- तेल परिष्करण शाला में
  - कार निर्माणी कम्पनी में
  - चीनी मिल में
  - बहु उत्पाद कम्पनियों में
6. उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है ?
- क्रय माँग पत्र
  - स्टोर्स माँग पत्र
  - सामग्री प्राप्ति पत्र
  - स्टोर्स क्रेडिट नोट
7. सामग्री निर्गमन पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से सम्बद्ध होते हैं ?
- लीफो पद्धति
  - फीफो पद्धति
  - हीफो पद्धति
  - भारित औसत मूल्य पद्धति
8. अ, ब एवं स विश्लेषण में मदों के वर्गीकरण का आधार है -
- सामग्री का विनियोग मूल्य
  - सामग्री का उपभोग मूल्य
  - प्रयुक्त सामग्री की मात्रा
  - उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) सभी

9. Selling and distribution overheads are absorbed on the basis of -
- (A) Rent per unit  
(B) Percentage on works cost  
(C) Percentage on selling price  
(D) Per unit sold
10. The use of LIFO method is suitable -
- (A) At rising prices  
(B) At falling prices  
(C) At constant prices  
(D) At standard prices
11. The use of FIFO method is suitable -
- (A) At rising prices  
(B) At falling prices  
(C) At constant prices  
(D) At marginal prices
12. Cost accounting was originated -
- (A) To meet the deficiencies of financial accounting  
(B) To meet the deficiencies of managerial accounting  
(C) To meet the deficiencies of standard costing  
(D) None of these
9. विक्रय एवं वितरण \_\_\_\_\_ आधार पर अवशोषित किये जा सकते हैं -
- (A) किराया प्रति इकाई  
(B) कारखाना लागत का प्रतिशत  
(C) विक्रय मूल्य का प्रतिशत  
(D) प्रति बेची गयी इकाई
10. लीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है -
- (A) कीमत वृद्धि की दशा में  
(B) घटती कीमत की दशा में  
(C) स्थिर कीमत की दशा में  
(D) प्रमाप कीमत की दशा में
11. फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है -
- (A) कीमत वृद्धि की दशा में  
(B) घटती कीमत की दशा में  
(C) स्थिर कीमत की दशा में  
(D) सीमान्त कीमत की दशा में
12. लागत लेखांकन का उद्भव हुआ -
- (A) वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए  
(B) प्रबन्धकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए  
(C) प्रमाप लागत की कमियों को दूर करने के लिए  
(D) इनमें से कोई नहीं

13. Cost Accounting is \_\_\_\_.
- (A) An art  
(B) A science  
(C) Art and Science both  
(D) None of these
14. The head office of the institute of ICWA is situated at -
- (A) Kolkata  
(B) Mumbai  
(C) Delhi  
(D) Gorakhpur
15. Telephone expenses is -
- (A) Fixed  
(B) Variable  
(C) Semi Variable  
(D) All of the above
16. The use of FIFO method is suitable -
- (A) At rising prices  
(B) At falling prices  
(C) At constant prices  
(D) None of these
17. Just-in-time aimed at -
- (A) Zero Inventories  
(B) Over production  
(C) Reduced man power  
(D) All of the above
13. लागत लेखांकन है \_\_\_\_
- (A) एक कला  
(B) एक विज्ञान  
(C) कला एवं विज्ञान दोनों  
(D) इनमें से कोई नहीं
14. दी इन्स्टीट्यूट ऑफ आई० सी० डब्ल्यू० ए० का प्रधान कार्यालय स्थित है -
- (A) कोलकाता  
(B) मुम्बई  
(C) दिल्ली  
(D) गोरखपुर
15. टेलीफोन व्यय है -
- (A) स्थिर  
(B) परिवर्तनशील  
(C) अर्द्ध परिवर्तनशील  
(D) उपरोक्त सभी
16. फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है -
- (A) कीमत वृद्धि की स्थिति में  
(B) घटती कीमत की स्थिति में  
(C) स्थिर कीमत की स्थिति में  
(D) इनमें से कोई नहीं
17. जस्ट-इन-टाइम का उद्देश्य है -
- (A) शून्य सूची  
(B) अधिक उत्पादन  
(C) जनशक्ति में कमी  
(D) उपरोक्त सभी

18. Travelling time from one job to another job is \_\_\_\_\_ idle time.
- (A) Normal  
(B) Abnormal  
(C) Over  
(D) None of the above
19. Packing cost is a -
- (A) Production cost  
(B) Selling cost  
(C) Distribution cost  
(D) Prime cost
20. Under machine-hour rate method machine is treated as -
- (A) Cost unit  
(B) A cost centre  
(C) Service department  
(D) None of these
21. The main purpose of cost accounting is to -
- (A) Fix selling price  
(B) Earn maximum profit  
(C) Provide data to management for decision making  
(D) All of these
18. एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए यात्रा का समय \_\_\_\_\_ निष्क्रिय समय है।
- (A) सामान्य  
(B) असामान्य  
(C) ओवर  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
19. पैकिंग लागत है -
- (A) उत्पादन लागत  
(B) विक्रय लागत  
(C) वितरण लागत  
(D) मूल लागत
20. मशीन-घण्टा दर पद्धति के अन्तर्गत मशीन को मानते हैं -
- (A) लागत इकाई  
(B) एक लागत केन्द्र  
(C) सेवा विभाग  
(D) इनमें से कोई नहीं
21. लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है -
- (A) विक्रय मूल्य निर्धारित करना  
(B) अधिकतम लाभ अर्जित करना  
(C) निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को डेटा प्रदान करना  
(D) उपरोक्त सभी

22. Normal cost are generally \_\_\_\_\_ cost.
- (A) Controllable  
(B) Uncontrollable  
(C) Discretionary  
(D) Avoidable
23. Which of the following is a direct worker ?
- (A) Foreman  
(B) Sweeper  
(C) Machine operator  
(D) Watchman
24. If profit is 50 % of sales, then the percent of cost will be \_\_\_\_\_ :
- (A) 50 %  
(B) 75 %  
(C) 100 %  
(D) None of these
25. Cost accounting is \_\_\_\_\_.
- (A) Part of financial accounting  
(B) Part of managerial accounting  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these
26. Cost accounting is based on -
- (A) On single entry system  
(B) On double entry system  
(C) On American accounting system  
(D) None of these
22. सामान्य लागत आमतौर पर \_\_\_\_\_ लागत होती है।
- (A) नियंत्रणीय  
(B) अदम्य  
(C) विवेकाधीन  
(D) परिहार्य
23. निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कार्यकर्ता है ?
- (A) अधिकर्मी  
(B) सफाईवाला  
(C) यंत्र प्रचालक  
(D) चौकीदार
24. यदि लाभ, बिक्री का 50 % है तो लागत का प्रतिशत होगा \_\_\_\_\_ :
- (A) 50 %  
(B) 75 %  
(C) 100 %  
(D) इनमें से कोई नहीं
25. लागत लेखांकन है \_\_\_\_\_.
- (A) वित्तीय लेखांकन का भाग  
(B) प्रबन्धकीय लेखांकन का भाग  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) इनमें से कोई नहीं
26. लागत लेखांकन आधारित होता है -
- (A) एकहरी लेखा प्रणाली पर  
(B) दोहरी लेखा प्रणाली पर  
(C) अमेरिकन लेखा प्रणाली पर  
(D) इनमें से कोई नहीं

27. Re order level is -
- (A) Less than the safety stock  
(B) Equal to safety stock  
(C) More than the safety stock  
(D) None of the above (A), (B) & (C)
28. Ordering cost is also called -
- (A) Procurement cost  
(B) Set up cost  
(C) Cost of planning order  
(D) All of the above (A), (B) & (C)
29. Labour turn-over is measured by -
- (A) Number of workers replaced / Average number of workers  
(B) Number of workers left / Number in the beginning plus number at the end  
(C) Number of workers joining / number in the beginning of the period  
(D) All of the above (A), (B) & (C)
30. Wage sheet is prepared by -
- (A) Time keeping department  
(B) Personal department  
(C) Payroll department  
(D) Cost accounting department
27. पुनरादेश स्तर होता है -
- (A) सुरक्षा स्टॉक से कम  
(B) सुरक्षा स्टॉक के बराबर  
(C) सुरक्षा स्टॉक से अधिक  
(D) उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) में कोई नहीं
28. आदेशन लागत को कहा जाता है -
- (A) अधिप्राप्ति लागत  
(B) स्थापन लागत  
(C) आदेश लागत  
(D) उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) सभी
29. श्रम निकासी मापी जाती है -
- (A) प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या / श्रमिकों की औसत संख्या द्वारा  
(B) छोड़े गये श्रमिकों की संख्या / प्रारंभ एवं अन्त में श्रमिकों की संख्या के योग द्वारा  
(C) नियुक्त श्रमिकों की संख्या / अवधि के प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या द्वारा  
(D) उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) सभी
30. मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है -
- (A) टाइम कीपिंग विभाग द्वारा  
(B) सेवा वर्गीय विभाग द्वारा  
(C) वेतन विभाग द्वारा  
(D) लागत लेखांकन विभाग द्वारा

31. Methods of measures to labour turnover are -
- (A) Two  
(B) Three  
(C) One  
(D) Four
32. Cost of abnormal idle time is transferred to -
- (A) Costing profit and loss a/c  
(B) General profit and loss a/c  
(C) Profit and loss Appropriation a/c  
(D) None of the above (A), (B) & (C)
33. Which of the following methods of wages payment is most suitable where quality and accuracy of work is of primary importance.
- (A) Piece Rate system  
(B) Time Rate system  
(C) Differential piece rate system  
(D) Halsey premium system
31. श्रम निकासी के माप की विधियाँ हैं -
- (A) दो  
(B) तीन  
(C) एक  
(D) चार
32. असामान्य कार्यहीन समय की लागत हस्तान्तरित की जाती है -
- (A) लागत लाभ-हानि खाते को  
(B) सामान्य लाभ-हानि खाते को  
(C) लाभ-हानि नियोजन खाते को  
(D) उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) में कोई नहीं
33. मजदूरी भुगतान की निम्न पद्धतियों में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, जहाँ कार्य की गुणवत्ता एवं परिशुद्धता प्राथमिक महत्त्व रखती है।
- (A) कार्य-भाग दर पद्धति  
(B) समय दर पद्धति  
(C) विभेदात्मक कार्य-भाग दर पद्धति  
(D) हाल्से प्रीमियम् पद्धति

34. When time saved is more than 40% of the standard time Halsey plan allows.
- (A) More wages than Rowan plan  
(B) Less wages than Rowan Plan  
(C) Equal wages to Rowan plan  
(D) None of the above (A), (B) & (C)
35. Administration overheads are recovered as a percentage of -
- (A) Direct Material  
(B) Direct wages  
(C) Prime cost  
(D) Works cost
36. When the ICWA act was passed in India -
- (A) 1949  
(B) 1959  
(C) 1969  
(D) 1975
37. Which method of costing is used in hospital -
- (A) Operating costing  
(B) Unit costing  
(C) Job costing  
(D) None of these
34. जब बचाया गया समय प्रमापित समय से 40% से अधिक हो तो हालसे योजना देती है -
- (A) रोवन योजना से अधिक मजदूरी  
(B) रोवन योजना से कम मजदूरी  
(C) रोवन योजना के समान मजदूरी  
(D) उपर्युक्त (A), (B) एवं (C) में कोई नहीं
35. प्रशासन उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किये जाते हैं -
- (A) प्रत्यक्ष सामग्री  
(B) प्रत्यक्ष श्रम  
(C) मूल लागत  
(D) कार्यों की लागत
36. भारत में आई० सी० डब्ल्यू० ए० अधिनियम कब पास किया गया -
- (A) 1949  
(B) 1959  
(C) 1969  
(D) 1975
37. अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है -
- (A) परिचालन लेखांकन  
(B) इकाई लेखांकन  
(C) उपकार्य लेखांकन  
(D) इनमें से कोई नहीं

38. Loss of material due to fire is treated as -
- (A) An overhead  
(B) Direct expenses  
(C) Normal loss  
(D) None of these
39. Inventory control method may be employed in \_\_\_\_\_.
- (A) Manufacturing business  
(B) Trading business  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these
40. Closing stock is valued at market price or cost price whichever is \_\_\_\_\_.
- (A) Higher  
(B) Lower  
(C) Like by the accountant  
(D) None of these
41. Directors remuneration and expenses for a part of \_\_\_\_\_.
- (A) Production overhead  
(B) Administration overhead  
(C) Selling overhead  
(D) Distribution overhead
38. आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है -
- (A) एक उपरिव्यय  
(B) प्रत्यक्ष व्यय  
(C) सामान्य हानि  
(D) इनमें से कोई नहीं
39. स्कन्ध नियंत्रण विधि का प्रयोग \_\_\_\_\_ में किया जा सकता है।
- (A) निर्माणी व्यवसाय  
(B) व्यापारिक व्यवसाय  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) इनमें से कोई नहीं
40. बाज़ार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो \_\_\_\_\_ हो, पर स्टॉक का मूल्यांकन होता है।
- (A) उच्च  
(B) निम्न  
(C) लेखापाल की इच्छानुसार  
(D) इनमें से कोई नहीं
41. संचालको का पारिश्रमिक एवं व्यय भाग बनता है \_\_\_\_\_.
- (A) उत्पादन उपरिव्यय  
(B) प्रशासन उपरिव्यय  
(C) विक्रय उपरिव्यय  
(D) वितरण उपरिव्यय

42. A cost which has no involvement of cash outlay is called -
- (A) National cost  
(B) Out-of-pocket cost  
(C) Sunk cost  
(D) All of these
43. Depreciation on machinery is an example of -
- (A) Imputed cost  
(B) Abnormal cost  
(C) Urgent cost  
(D) Out of stock cost
44. Machine hour rate takes in to account \_\_\_\_\_.
- (A) Time fact  
(B) Cost fact  
(C) Place fact  
(D) None of these
45. Under the Halsey wages plan, a worker is paid.
- (A) At a time rate higher than the usual rate  
(B) According to his efficiency  
(C) At a double rate for overtime  
(D) Normal wage plus bonus
42. एक लागत जिसमें नकद परिव्यय की कोई भागीदारी नहीं होती है, कहलाती है -
- (A) काल्पनिक लागत  
(B) आउट-ऑफ-पॉकेट लागत  
(C) डूबत लागत  
(D) उपरोक्त सभी
43. मशीनरी पर मूल्य ह्रास इसका एक उदाहरण है -
- (A) स्वलागत  
(B) असामान्य लागत  
(C) अत्यावश्यक लागत  
(D) स्टॉक से बाहर लागत
44. मशीन घंटे की दर \_\_\_\_\_ को ध्यान में रखती है।
- (A) समय तथ्य  
(B) लागत तथ्य  
(C) स्थान तथ्य  
(D) इनमें से कोई नहीं
45. हाल्से मजदूरी योजना के अन्तर्गत, एक कर्मचारी को भुगतान किया जाता है।
- (A) सामान्य दर से अधिक समय की दर पर  
(B) उसकी दक्षता के अनुसार  
(C) अधिक समय के लिए दोहरे दर पर  
(D) सामान्य वेतन एवं बोनस

46. Fixed expenses is not -

- (A) Rent of factory
- (B) Salary of Foreman
- (C) Carriage outward
- (D) Advertisement expense

47. In comparison to normal time rate, overtime wage rate is -

- (A) Four times
- (B) Three times
- (C) Double
- (D)  $1\frac{1}{2}$  Times

48. Which of the following is accounting record ?

- (A) Bin card
- (B) Stores ledger
- (C) Bill of materials
- (D) All of these

46. निश्चित व्यय नहीं है -

- (A) फैक्ट्री का किराया
- (B) फोरमैन का वेतन
- (C) जावक माल भाड़ा
- (D) विज्ञापन व्यय

47. सामान्य समय दर की तुलना में, ओवरटाइम मजदूरी दर है -

- (A) चार बार
- (B) तीन बार
- (C) दोहरा
- (D)  $1\frac{1}{2}$  बार

48. निम्नलिखित में से कौन-सा लेखांकन का रिकार्ड है ?

- (A) बिन कार्ड
- (B) भण्डार बही
- (C) सामग्री का बिल
- (D) इनमें से सभी

49. In cost accounting, the overtime is considered as -
- (A) Indirect costs  
(B) Premium costs  
(C) Overhead costs  
(D) Both (A) and (B)
50. Cost accounting is used -
- (A) By Big producers  
(B) By small producers  
(C) By marginal producers  
(D) By Big and small producers
49. लागत लेखांकन में, अधिसमय को माना जाता है -
- (A) अप्रत्यक्ष लागत  
(B) प्रीमियम लागत  
(C) उपरिव्यय लागत  
(D) दोनों (A) और (B)
50. लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है -
- (A) बड़े उत्पादकों द्वारा  
(B) छोटे उत्पादकों द्वारा  
(C) सीमान्त उत्पादकों द्वारा  
(D) बड़े एवं छोटे उत्पादकों द्वारा

\*\*\*\*\*